



रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर  
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BILASPUR



भारत सरकार : रेल मंत्रालय

Govt. of India (Ministry of Railways)  
Phone : 07752-417742, Fax : 07752-417742

सं. आरआरबी/बीएसपी/03-2014/स्किल टेस्ट/2018/561

दिनांक : 18.01.2018

**केंरोसू सं. 03/2014 के विरुद्ध कनिष्ठ आशुलिपिक/आशुलिपिक (हिंदी) के पद के लिए  
कौशल परीक्षा आयोजित करने की सूचना**

- 1.0 केंरोसू सं. 03/2014 के कोटि संख्या 01 कनिष्ठ आशुलिपिक/आशुलिपिक (हिंदी) के पद के लिए दिनांक 11/01/2015 को आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा दिनांक 16/12/2015 को की गई थी और आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए 254 (दो सौ चौवन) उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से चुना गया था। चुने गए 254 उम्मीदवारों के अनुक्रमांक आरोही क्रम में रेभवो/बिलासपुर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- 2.0 केंरोसू-03/2014 के अनुच्छेद सं.8.02 के अनुसार, आशुलिपि कौशल परीक्षा उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार मैनुअल टाइपराइटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी।
- 3.0 तदनुसार, रेभवो/बिलासपुर के दिनांक 28.08.2017 के पत्र के माध्यम से अर्हताप्राप्त सभी 254 उम्मीदवारों से मैनुअल टाइपराइटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए विकल्प मांगा गया था। यह पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किया गया था तथा रेभवो/बिलासपुर की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया था।
- 4.0 इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.08.2017 के उत्तर के रूप में जिन उम्मीदवारों के विकल्प इस कार्यालय को प्राप्त होने के लिए शेष रह गए थे, उन्हें इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.10.2017 के माध्यम से अनुस्मारक भेजा गया था।
- 5.0 दिनांक 28.08.2017 और दिनांक 04.10.2017 के पत्रों से यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई उम्मीदवार अपने विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि वह कौशल परीक्षा के लिए कंप्यूटर मोड चुना है और मैनुअल टाइपराइटर चुनने वाले उम्मीदवारों को आशुलिपिक कौशल परीक्षा के लिए अपने स्वयं के टाइपराइटर की व्यवस्था करनी होगी तथा एक बार विकल्प का चयन करने के पश्चात् विकल्प में परिवर्तन के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 6.0 आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से प्राप्त विकल्प, मैनुअल टाइपराइटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के आधार पर उन्हें आशुलिपि कौशल परीक्षा आयोजित करने के लिए चिन्होंकित किया गया है। तथापि, जिन उम्मीदवारों ने मैनुअल टाइपराइटर या कंप्यूटर में से कोई विकल्प नहीं चुना है या कोई विकल्प इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आशुलिपि कौशल परीक्षा देने के लिए निर्धारित किया गया है, जैसा कि पहले ही दिनांक 28.08.2017 और दिनांक 04.10.2017 के पत्रों में सूचित किया गया है।
- 7.0 अब इस सूचना के अनुसार यह अवगत कराया जाता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आशुलिपि कौशल परीक्षा (हिंदी) आयोजित करने के लिए कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन (गेल) होगा।

- 8.0 वे उम्मीदवार जिन्होंने गद्यांश के प्रतिलेखन के लिए मैनुअल टाइपराइटर का चयन किया है, उन्हें आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए अपने साथ हिंदी टाइपराइटर (की पंचिंग प्रकार का) लाना होगा। परीक्षा के लिए समय पर हिंदी टाइपराइटर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पूर्णतया उम्मीदवारों की होगी। यदि उम्मीदवार के द्वारा लाए गए टाइपराइटर में परीक्षा के दौरान कोई अवरोध उत्पन्न होता है या वह विफल हो जाता है, तो रेभबो द्वारा कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में रेभबो द्वारा टाइपराइटर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 9.0 तथापि, जिन उम्मीदवारों को हिंदी में गद्यांश के प्रतिलेखन के लिए (अनुच्छेद 6.0) डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए निर्धारित किया गया है, उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर रेभबो/बिलासपुर द्वारा प्रदान किया जाएगा और कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन (गेल) होगा।
- 10.0 हिंदी में गद्यांश का श्रुतलेख 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट का होगा और गद्यांश के प्रतिलेखन के लिए निर्धारित समय 75 मिनट होगा।
- 11.0 आशुलिपि परीक्षा के लिए केंद्र, तारीख और उपस्थिति का समय रेभबो/बिलासपुर की वेबसाइट के माध्यम से सलाह/सूचित किया जाएगा। आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए दिनांक और स्थान दर्शाते हुए बुलावा पत्र चयनीत उम्मीदवारों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।
- 12.0 ऐसे उम्मीदवार जिनके आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी हो या जो अधिसूचना में निर्धारित पात्रता शर्तों और लिखित परीक्षा और आशुलिपि परीक्षा के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। इसके अलावा, अगर किसी भी उम्मीदवार का नाम वर्तमान रोक सूची में पाया गया, तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाएगी।

अध्यक्ष  
रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर